

No.: CSL/BSE/NSE/CSE/20-21/

Date: -21.01.2021

- 1) BSE Limited (BY BSE LISTING CENTRE)
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001.
Email- corp.compliance@bseindia.com
Stock Code: 532339
- 2) National Stock Exchange of India Limited (BY NSE NEAPS)
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051.
Email- cmlist@nse.co.in
Stock Code: COMPUSOFT
- 3) The Calcutta Stock Exchange Limited (BY E-MAIL)
7, Lyons Range, Dalhousie,
Kolkata: 700001
West Bengal
Email- listing@csl-india.com
Stock Code: 13335


Sub: Submission of newspaper notice of Board Meeting of the Company.


Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed copy of notices published by the Company in Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi) Newspapers on 21st January, 2021 for Notice of Board Meeting of the Company to be held on 29th January, 2021.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For Compucom Software Limited


(Swati Jain)
Company Secretary & Compliance Officer
FCS:8728



Products (India) Limited

Office: Duggirala, Guntur District - 522 330
 CIN: L15110AP1961PLC000874

NOTICE

A meeting of the Board of Directors of the Company is to be held on Thursday, 28th day of January 2021 at the Corporate Office of the Company situated at Plot No. 1, Ameerpet, Hyderabad- 500016 to consider *inter alia*, un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the third quarter ended 31st December, 2021.

By Order of the Board
 Sd/-
 Sridevi Dasari
 Company Secretary & Compliance Officer

J. L. MORISON (INDIA) LIMITED

CIN: L51109WB1994PLC088167
 Regd. Office: Rasool Court
 20, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001
 Phone: 033 22480114 / 5,
 Email: investors@jlmorison.com,
 Website: www.jlmorison.com/corporate

NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 29th January, 2021 *inter alia* to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

Notice can be accessed on the web-site of the Company i.e. www.jlmorison.com/corporate and the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

For J. L. Morison (India) Limited
 Sd/-
 Sonal Naik
 Company Secretary &
 Compliance Officer

Place: Mumbai
 Date: 20th January, 2021

ROSELABS FINANCE LIMITED

CIN: L70100MH1995PLC318333

Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Hornimam Circle, Fort, Mumbai - 400 001 Tel.: 91.22.61334400 Fax: +91.22.23024550
 Website: www.roselabsfinancelimited.in E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED 31-DECEMBER-2020

Sr. No.	Particulars	(₹ in Lakhs)		
		For the quarter ended 31-Dec-20	For the Nine months ended 31-Dec-20	For the quarter ended 31-Dec-19
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(8.46)	(2.60)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(283.87)	(2.60)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(283.87)	(2.60)
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(3.22)	(283.87)	(2.60)
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	1000.00	1000.00	1000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(1,331.05)		
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) (not annualised) Basic and Diluted	(0.03)	(2.84)	(0.03)

NOTE

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.roselabsfinancelimited.in.
- By Order dated 23-December-19, the Adjudicating Officer of SEBI has confirmed their Show-Cause Notice dated 15-December-09 imposing penalty of ₹. 253.73 Lakhs for alleged violation of certain provisions of SEBI Regulations during the financial year 2003-04 when the Company was under the control of earlier promoters. The Company has filed an appeal before the Securities Appellate Tribunal challenging the Order which has now been adjourned to 27-January-21. The Recovery officer of SEBI issued a notice of demand to recover the penalty of ₹. 253.73 lakhs along with the interest of ₹. 21.68 lakhs on 08-September-20. In light of the above, the Company has made provision of ₹. 275.41 lakhs during 30-September-20 and the same has been disclosed as Exceptional item in the above statement.

For and on behalf of the Board
 For Roselabs Finance Limited
 Sd/-
 Nilesh Rawat
 Managing Director
 (DIN : 06705140)

Place : Mumbai
 Date : 19-January-2021

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

Regd. Office: Jaykaypuram-307019, District : Sirohi, (Rajasthan)
 CIN: L74999RJ1938PLC019511, Tel: 91-11-68201860-869-894
 Fax: 91-11-23739475, Email: jklc.investors@jklmail.com

NOTICE

A meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 29th January 2021 *inter alia* to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the third Quarter ended 31st December 2020.

The said Notice can be accessed on the website of the Company at www.jklakshmicement.com and may also be accessed on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place : New Delhi For JK Lakshmi Cement Ltd.
 Date : 20th January 2021 B.K. Daga
 Website: www.jklakshmicement.com Sr. VP & Company Secretary

KERALA CASHW BOARD LIMITED (KCB)

T.C-29/4015, Women's College-Bakery Junction Road
 Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, Kerala, India-695014
 Tel: +91 471 4253853, 4852855 Email: kcb@keralacashewboard.com
 Web: www.keralacashewboard.com

No: KCB/23/BS/2021/GHN(6) Date: 18.01.2021

e-Tender Notice

Kerala Cashew Board Limited invites e-tenders (e-Tender ID:- 2021_KCBL_407349_1) through Government e-procurement portal for supply of 1000-3000 Metric Tonnes of quality Dried Cashew Nut of 2021 crop of Ghana origin with the following quality specifications on import basis:

Outturn : 50 lbs per 80 Kg bag
 Nut Count : 190 Numbers per Kg

Last date for submission and uploading e-tenders	: 1700 hours on 10 th February 2021
Opening of e-tender	: 1100 hours on 11 th February 2021

COMPUCOM SOFTWARE LIMITED

IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) (India)
 Tel: 0141-2770131, Fax: 0141-2770335, Email: fin@compucom.co.in
 Website: www.compucom.co.in, CIN: L72200RJ1995PLC009798

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, January 29, 2021 at the registered office of the Company at IT- 14-15, EPIP, Sitapura, Jaipur - 302022 at 04.00 P.M.; *inter alia* to approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2020 and take on record Limited Review Report thereon. This intimation is also available on Company's website at www.compucom.co.in and on Stock Exchanges' website at www.nseindia.com, www.cse-india.com and www.bseindia.com.

For Compucom Software Limited
 Place: Jaipur Sd/- (Swati Jain) Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 20.01.2021 FCS:8728

EXTENSION OF AUCTION OF PSL LIMITED- IN LIQUIDATION

EARLIER SCHEDULED ON 28.01.2021, NOW EXTENDED TO 16.02.2021
 This is to inform that the E-Auction of PSL Limited to be conducted on 28.01.2021 vide Sale Notice published on 05.01.2021 and 06.01.2021 is being extended as follows:

Revised date of E-Auction- 16.02.2021

Time of E-Auction- 3.00 pm to 6.00 pm

The last date for acceptance of EMD shall be till 3 pm on 15.02.2021. All the prospective bidders are requested to take note of this and contact in the following manner for revised documents: Email: psl.limited@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.com, nitinjain@aaainsolvency.com

Mobile: 8800865284 (Puneet Sachdeva)/011-46664628 (Ms. Harshita)

Nitin Jain

Liquidator in the matter of PSL Limited

IBBI (IBBI/PA-001/IP-P-01562/2019-2020/12462)

Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048

Date: 20-01-2021 Email: nitinjain@aaainsolvency.com, psl.limited@aaainsolvency.com

Place: New Delhi assetsale1@aaainsolvency.com

Contact Person: Puneet Sachdeva/Mr. Nitin Jain +91-8800865284 / 011-466646128

